

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 मई 2014—ज्येष्ठ 3, शक 1936

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,

भोपाल, दिनांक 24 मई, 2014 (ज्येष्ठ 3, 1936)

क्र. 7641-वि.स.-विधान-2014.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 22 मई, 2014
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं,
एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014 को पूर्वाह्न
10.30 बजे भोपाल में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल:

दिनांक 22 मई, 2014

राम नरेश यादव

राज्यपाल,

मध्यप्रदेश.”.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.